



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 338]

No. 338]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 29, 2007/चैत्र 8, 1929

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 29, 2007/CHAITRA 8, 1929

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मार्च, 2007

सं. 56 (आर.ई-2006)/2004-2009

का.आ. 497(अ).—विदेश व्यापार नीति, 2004-2009 के पैराग्राफ 2.1 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्वारा, अधिसूचना सं. 38 (आर.ई-2006)/2004-2009 दिनांक 22 दिसम्बर, 2006 में निम्नानुसार संशोधन करती है :-

1. एग्जिम कोड 1001 10 90 (ड्यूरम गेहूँ : अन्य) और 1001 90 20 (अन्य गेहूँ) पर आने वाली मदों के लिए मौजूदा नीति 31 दिसम्बर, 2007 तक आस्थगित रहेगी। इस अवधि के दौरान इन मदों का आयात मुक्त रूप से अनुमत होगा।

2. इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

[फा. सं. 01/89/180/विविध-66/एम एम 06/पी सी-1ए]

क्रिस्टी एल, फेर्नान्डेज़, महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th March, 2007

No. 56 (RE-2006)/2004-2009

S.O. 497(E).—In exercise of powers conferred by Section 5 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 read with paragraph 2.1 of the Foreign Trade Policy 2004-2009, the Central Government hereby amends the Notification No. 38 (RE-2006)/2004-2009 dated 22nd December, 2006, as under :—

1. The existing policy for items falling at Exim Codes 1001 10 90 (Durum Wheat : Other) and 1001 90 20 (Other Wheat) shall remain in abeyance till 31st December, 2007. During this period import of these items will be allowed freely.

2. This issues in public interest.

[F. No. 01/89/180/Misc. 66/AM 06/PC-1A]

CHRISTY L. FERNANDEZ, Director General of Foreign Trade